



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, मई 19, 1977/वैशाख 29, 1899

No 213]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 1977/VAISAKHA 29, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th May 1977

S.O. 362(E).—Whereas the Election Commission by its notification No. 464/77, dated 25 February, 1977, changed the date of poll in 4-Ladakh Parliamentary Constituency from 19 March, 1977, as appointed by the Commission by its notification No. 464/77, dated 10 February, 1977 to 6 June, 1977,

And whereas it has now been decided to take the poll in the above mentioned Parliamentary Constituency alongwith the poll for the general election to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly from 43-Leh and 44-Kargil assembly constituencies, to be held in pursuance of the Governor's notification, dated 30 May, 1977,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 and 153 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and in partial modification of its notification No. 464/77, dated 25 February 1977, the Election Commission hereby makes the following amendments to its notification No. 464/77, dated 10 February, 1977, as amended subsequently, namely —

- (1) In clause d(ii) relating to completion of election in 4-Ladakh parliamentary constituency for the figures and words '15 June 1977 (Wednesday),' the figures and words "9 July, 1977 (Saturday)," shall be substituted

(1971)

- (ii) In the Schedule to the notification, under item 7-JAMMU AND KASHMIR, in column 2 for the existing entry against S No. 4-Ladakh, the entry "30 June, 1977 (Thursday)", shall be substituted

[No. 464/J&K-HP/77]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 मई, 1977

का० आ० 362 (अ०) —निर्वाचन आयोग ने 4 लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अपनी अधिसूचना सं० 464/77 तारीख 10 फरवरी, 1977 द्वारा यथा नियत की गई मतदान की तारीख 19 मार्च, 1977 को अपनी अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 25 फरवरी, 1977 द्वारा बदल कर 6 जून, 1977 कर दिया था,

और, अब, उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान, 43. लेह और 44 कारगिल विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से जम्मू-कश्मीर विधान सभा के लिए राज्यपाल की तारीख 30 मई, 1977 की अधिसूचना के अनुसरण में होने वाले साधारण निर्वाचन के लिए मतदान के साथ कराने का विनिश्चय किया गया है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 और धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 25 फरवरी, 1977 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, तत्पश्चात् यथा अपनी संशोधित अधिसूचना सं० 464/77, तारीख 10 फरवरी, 1977 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

- (i) 4. लद्दाख संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन पूरा कर लेने से संबंधित खण्ड व(ii) में, "15 जून, 1977 (बुधवार)" शब्दों और शब्दों के स्थान पर, "9 जुलाई, 1977 (शनिवार)" शब्दों और शब्द रखे जाएंगे।
- (ii) उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 7. जम्मू कश्मीर के नीचे स्तम्भ 2 में, क्र० सं० 4. लद्दाख के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, "30 जून, 1977 (बृहस्पतिवार)" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं० 464, ज० क०-लो० सं०/7]

S.O. 363(E) —In modification of its notification No. 464/77(1), dated 10 February, 1977, issued under section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission fixes the hours from 7.30 A.M. to 4.30 P.M. as the hours during which poll shall be taken in 4-Ladakh Parliamentary Constituency of Jammu and Kashmir

[No. 464/J&K-HP/77(1)]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

का० प्र० 633 (प्र०).—निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अधीन जारी की गई तारीख 10 फरवरी, 1977 को अपनी अधिसूचना सं० 464/77(1) में संशोधन करते हुए, 7.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान, जम्मू-कश्मीर के 4-लद्दाख संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान होगा।

[सं० 464/ज.क.लो.सं/77(1)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन,
मन्त्रि, भारत निर्वाचन आयोग।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

